

मैं मतदान करता/करती हूँ।



मई  
2017


# आम चुनाव

## प्रांतीय चुनाव 9 मई, 2017 को है


आप मतदान कर सकते हैं यदि आप:

- 9 मई, 2017 को 18 साल या उससे अधिक उम्र के हैं
- कैनैडा के नागरिक हैं, और
- पिछले छह महीनों से ब्रिटिश कोलंबिया के निवासी हैं

### मतदाता पंजीकरण


 मतदान करने के लिए आपका पंजीकृत होना आवश्यक है। यदि आपने पहले ही पंजीकरण नहीं करवाया है, तो आप मतदान करते समय पंजीकरण करा सकते हैं। मतदान करते समय अपना आईडी साथ लाना न भूलें।

### मतदान आसान बनाएँ


 मेल में अपना मतदान कहाँ करें कार्ड ढूँढ़ें और उसे मतदान करते समय अपने साथ लाएँ। इससे मतदान तेज़ी से और आसानी से हो सकेगा।

आप प्रांत के किसी भी मतदान केंद्र में मतदान कर सकते हैं। आपके मतदान कहाँ करें कार्ड पर और [elections.bc.ca/wtv](http://elections.bc.ca/wtv) पर मतदान स्थलों को सूचीबद्ध किया गया है। आप अपने सबसे नज़दीक का मतदान स्थल जानने के लिए **1-800-661-8683** पर फ़ोन भी कर सकते हैं।


### एडवांस वोटिंग के छह दिन

 एडवांस वोटिंग 29 और 30 अप्रैल, तथा 3, 4, 5 व 6 मई को सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक (स्थानीय समय) उपलब्ध है। सभी मतदाता एडवांस वोटिंग में मतदान कर सकते हैं और एडवांस वोटिंग वाली सभी जगहों पर व्हील-चेयर से पहुँचा जा सकता है।


### आम मतदान दिवस

 9 मई आम मतदान का दिन है। सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक (पैसिफ़िक समय) मतदान कर सकते हैं।

### मैं बाहर रहूँ तो क्या होगा?


 अपने जिला चुनाव कार्यालय में अब से लेकर 9 मई शाम 4 बजे (पैसिफ़िक समय) तक मतदान करें, या इलेक्शन्स बी सी से डाक पैकेज द्वारा मतदान का आग्रह करें।

### उम्मीदवार बनना

 आप उम्मीदवार नामांकन किटें अपने जिला चुनाव कार्यालय से या ऑनलाइन [elections.bc.ca](http://elections.bc.ca) से प्राप्त कर सकते हैं।

भरे गए नामांकन किट आपके जिला चुनाव अधिकारी को मंगलवार, 18 अप्रैल, 2017 को दोपहर 1 बजे (पैसिफ़िक समय) तक डिलीवर किए जाने चाहिए।

### कोई प्रश्न हैं?

 अधिक जानकारी के लिए हमारे वेबसाइट पर जाएँ, हमें टोल-फ़्री फ़ोन करें या हमारे जिला चुनाव कार्यालय से संपर्क करें

[elections.bc.ca](http://elections.bc.ca) / 1-800-661-8683



 **ELECTIONS BC**  
A non-partisan Office of the Legislature  
TTY 1-888-456-5448